

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 674]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 16 अक्टूबर 2019 — आश्विन 24, शक 1941

श्रम विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 16 अक्टूबर 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-4/2019/16.— छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) नियम, 1963 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1961 (क्र. 26 सन् 1961) की धारा 21 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (3) के अधीन अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्वारा, प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिवस के अवसान के पश्चात् विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, श्रमायुक्त, कार्यालय श्रमायुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

भाग दो में, उपाबंध में, सरल क्रमांक 14-क (1-क) में, शब्द एवं अंक “60 वर्ष” के स्थान पर, शब्द एवं अंक “62 वर्ष” प्रतिस्थापित किया जाये।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. डी. पुरबिया, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 16 अक्टूबर 2019

क्रमांक एफ 10-4/2019/16. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-4/2019/16, दिनांक 16-10-2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. डी. पुरबिया, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 16th October 2019

NOTIFICATION

No.F10-4/2019/16. — The following further draft amendment in the Chhattisgarh Industrial Employment (Standing Orders) Rules 1963, which the State Government, proposes to make in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of Section 21 of the Chhattisgarh Industrial Employment (Standing Orders) Act, 1961 (No. 26 of 1961), is hereby, published as required under sub-section (3) of Section 21 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after expiry of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette;

Any objection or suggestion regarding the said draft received from any person before the specified period during office hours, by Office of the Labour Commissioner, Office of the Labour Commissioner, Government of Chhattisgarh, Indravati Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar, District Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

In part-II, in the Annexure, in serial number 14-A(1-a), for the word and figure "60 years", the word and figure "62 years" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
P.D. PURBIYA, Deputy Secretary.